

अनुक्रमांक

नाम

वार्षिक परीक्षा 2020-21

कक्षा - सप्तम

विषय : गणित

निर्धारित समय : 3:00 घण्टे

अधिकतम अंक : 100

सामान्य निर्देश :

- प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर खण्डों के क्रमानुसार ही करें।
 - कृपया जांच लें प्रश्न पत्र में प्रश्नों की कुल संख्या 08 तथा मुद्रित पृष्ठों की संख्या 04 है।
 - कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें।
 - घण्टी का प्रथम संकेत प्रश्न पत्रों के वितरण एवं प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए है।
 - 15 मिनट के पश्चात घण्टी के द्वितीय संकेत पर प्रश्न पत्र हल करना प्रारम्भ करें।
1. निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए— (10x1=10)

Fill in the blanks :

- क. $8^6 \times 7^6 = ()^6$
- ख. दो कोण सर्वांगसम होते हैं यदि ——
Two angles are congruent if ——
- ग. यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर हो तो इसका परिमाप है—
If the area of a square is 225 m^2 , then its perimeter is ——
- घ. यदि $x\%$ of $\frac{12}{5}$ का is, $\frac{18}{25}$ हो तो $x =$

If $\frac{12}{5}$ का $x\%$ $\frac{18}{25}$ है

ड. $\frac{12}{20} = \frac{\boxed{1}}{5}$

च. आयत का परिमाप =

The perimeter of a rectangle =

छ. 1 हेक्टेयर = ——

1 hectare = ——, m^2

ज. समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ----- होती है।
 Measurements of each angle of equilateral triangle is

- झ. $(a^3 - b^3) = (a - b)($ _____)
- ञ. 1, 5, 9, 13,
2. निम्नलिखित कथनों में सत्य / असत्य छांटकर लिखिए— (5x1=5)

Choose True / False in the following statements :

- क. शून्य एक अपरिमेय संख्या है।
 Zero is an irrational number
- ख. घन की प्रत्येक कोर बराबर होती है।
 Each side of a cube are equal.
- ग. $\frac{0}{4}$ और $\frac{0}{-5}$ समान परिमेय संख्याएँ नहीं हैं।
 $\frac{0}{4}$ and $\frac{0}{-5}$ are not equal rational numbers.
- घ. मिश्रधन = मूलधन + व्याज
 Amount = Principal + Interest
- ड. एक त्रिभुज के चार शीर्ष हो सकते हैं।
 A triangle may have four vertices.
3. सही विकल्प चुनिये— (5x1=5)

Choose the correct option :

- क. यदि $a:b = 4:5$ तथा $b:c = 2:3$ तथा $a:c$
 If $a:b = 4:5$ and $b:c = 2:3$ then $a:c$
 (i) 4:3 (ii) 8:15 (iii) 8:9 (iv) 5:3
- ख. 60° का पूरक कोण क्या होगा?
 The complement angle of 60° will be :
 (i) 30° (ii) 60° (iii) 90° (iv) 100°
- ग. किसी वृत्त का क्षेत्रफल $9\pi \text{ cm}^2$ है तब इसकी परिधि है—
 The area of a circle is $9\pi \text{ cm}^2$ Its circumference
 (i) $6\pi \text{ cm}$ (ii) $36\pi \text{ cm}$ (iii) $9\pi \text{ cm}$ (iv) $36\pi^2 \text{ cm}$
- घ. यदि $x=100$ तथा $120\% x$ का है
 If $x=100$ then $120\% \text{ of } x$ is _____
 (i) 125 (ii) 115 (iii) 120 (iv) 110
- ड. यदि किसी वर्ग का परिमाप 16 से.मी. है तब इसका क्षेत्रफल होगा—
 If the perimeter of a square is 16 cm. then its area is _____

4. निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए—
 Solve the following questions : (5x3=15)
- क. एक एयर कन्डीशनर को रु. 18000 में बेचकर मुझे 20 प्रतिशत की हानि होती है, तब मैंने इसे कितने में खरीदा था?
 By selling an Air Conditioner for Rs. 18000, I loose 20%
 What did I pay for it?
- ख. कोई कोण ABC खींचिये। एक किरण BD इस प्रकार खींचिए कि $\angle ABD = \angle CBD$
 Draw an angle ABC, Draw a ray BD as well as $\angle ABD = \angle CBD$
 हल कीजिए— Solve it: $\frac{3}{4}x - 6 = \frac{5}{9}x + 8$,
- एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 9 से.मी. तब इसकी प्रत्येक भुजा की माप होगी?
 An equilateral triangle has perimeter 9 cm. then find its side.
- ड. $(6x+7y)$ में $(3x+4y)$ से गुणा कीजिए।
 Multiply $(6x+7y)$ from $(3x+4y)$
- निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए—
 Solve the following questions :
- क. $xy + yz + zx$ में क्या जोड़ें कि $-xy - yz - zx$ प्राप्त हो?
 What should be added to $xy + yz + zx$ to get $-xy - yz - zx$
- ख. 2000 रुपये को P, Q, R में 2:3:5 के अनुपात में बांटो।
 Divide Rs. 2000 among P, Q, R in the ratio 2:3:5
- ग. त्रिभुज ABC की रचना करो जिसमें $BC = 4$ cm., $\angle B = 50^\circ$ तथा $\angle C = 70^\circ$
 Construct $\triangle ABC$ in which $BC = 4$ cm., $\angle B = 50^\circ$ and $\angle C = 70^\circ$
- घ. उस त्रिभुज के लम्ब की माप ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 42 से.मी.² तथा आधार की माप 12 से.मी.
 Find the attitude of a triangle whose area is 42 cm² and base is 12 cm.
6. निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए— Solve the following : $(2x3=6)$
- क. यदि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 24 है तो संख्याओं को बताइए।

If the sum of two consecutive numbers is 24, tell those numbers.

- ख. एक व्यापारी एक साइकिल रु. 2500 में खरीदता है तथा रु. 2700 में बेचता है तब उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो।

A trader purchased a bicycle for Rs. 2500 and sold at Rs. 2700. What is His profit percentage.

- ग. मान ज्ञात करो— Find the value of:

$$\left(\frac{-1}{2}\right)^2 \times 2^3 \times \left(\frac{3}{4}\right)^2$$

7. निम्न प्रश्नों को हल कीजिए— (4x7=28)

Solve the following questions :

- क. किसी संख्या के 6 गुने से उसका 5 गुना घटाने पर शेषफल 20 तो यह संख्या बताइए।

Remainder is 20 when you subtract 5 times from its 6 times.

- ख. एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 100 वर्ग मी². है तथा इसका परिमाप क्या है?

A square park has area 100 m², then what is its perimeter.

- ग. 180° का कोण बनाकर पटरी परकार की सहायता से इसको चार भागों में बांटिए।

Divide it into four equal parts with the help of the line from an angle 180°.

- 8 मजदूर एक कमरा 5 दिन में बना सकते हैं। 15 मजदूर उसे किने दिन में बना सकेंगे?

8 labours can make a room in 5 days. 15 labours will be able to make him in how many day?

- निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए— (3x5=15)

Solve the following questions :

- क. निम्नलिखित समीकरण को ट्रायल तथा एरर विधि से हल करो—

Solve the following equation by trial and error method :

$$x + 2 = 10$$

- ख. निम्नलिखित का माध्य ज्ञात कीजिए—

Find the mean of the following distribution :

X	4	6	9	10	15
Y	5	-10	10	7	8